



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 07.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना निघासन पुलिस द्वारा 200 अदद अवैध टैबलेट (अल्प्रासेफ) बरामद कर अभियुक्त हसनैन को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.09.21 को थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त हसनैन पुत्र हकीमुद्दीन निवासी ग्राम लखनियापुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 200 अदद अवैध नशीली टैबलेट अल्प्रासेफ बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना निघासन पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त हसनैन का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 128/20 धारा 379/411 भा0दं0वि0 थाना निघासन खीरी
2. मु0अ0सं0 129/20 धारा 457/380/411 भा0दं0वि0 थाना निघासन खीरी
3. मु0अ0सं0 377/20 धारा 2(ख)1/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना निघासन खीरी
4. मु0अ0सं0 112/21 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भा0दं0वि0 थाना निघासन खीरी
5. मु0अ0सं0 113/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन खीरी

बरामदगी विवरण

200 अदद अवैध नशीली टैबलेट अल्प्रासेफ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 निर्मल जीत यादव थाना निघासन
2. हे0का0 आनन्द तिवारी
3. हे0का0 रमेश कुमार
4. का0 कृष्ण कुमार
5. का0 कौशल कुमार

थाना फूलबेहड पुलिस द्वारा 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.09.21 को थाना फूलबेहड पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 363/21 धारा 2ख(17)/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1. इसहाक पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम मौलापुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी 2. वसीम पुत्र नबी अहमद 3. वतीम पुत्र रहूफ 4. नासिर पुत्र आशिक अली नि0गण श्रीनगर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० मु०अ०सं० 406/21 धारा 342/323/376/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त कमलेश पुत्र तेजी निवासी ग्राम नयागांव थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अ०सं० 347/21 धारा 394/411/307 भादवि में वारण्टी अभियुक्त सूफियाना पुत्र मुसाफिर निवासी ग्राम भगन थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 207 लीटर अवैध शराब सहित 11 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **207 लीटर अवैध कच्ची शराब, 04 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **10 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं० | थाना | बरामदगी | गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या |
|---------|---------------|----------|-------------------------------|
| 1. | थाना मोहम्मदी | 102 लीटर | 02 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 2. | थाना मितौली | 30 लीटर | 03 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 3. | थाना भीरा | 25 लीटर | 02 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 4. | थाना सिंगाही | 20 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 5. | थाना ईसानगर | 10 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 6. | थाना पसगवां | 10 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 7. | थाना नीमगांव | 10 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| | कुल योग | 207 लीटर | 11 अभियुक्त गिरफ्तार |